

"ध्यान ... ध्यान ... ध्यान"

ध्यान...ही...आरोग्य है

ध्यान...ही...आत्मसंपदा

ध्यान...ही...आनंद है

ध्यान...ही...सबका अहोभाग्य

ध्यान...ही...आत्म-शक्ति

ध्यान...ही...आत्मा की ऊर्जा है

प्रतिदिन...ध्यान को अपनाएँ

आप भी करें...औरों को सिखाएँ

बारम्बार...ध्यानाभ्यास करें

बार-बार...ध्यान द्वारा शांति पाएँ

ये है अपने...जीवन का सच

ये है अपने...जीवन की कहानी

ये है अपने...जीवन का लक्ष्य

ये है अपने...जीवन का मकसद

ध्यान ही है एकमात्र शरण

सतत ध्यान-साधना...ही...है...अपना एकमात्र

मुक्तिमार्ग